

DCH-106
Post Harvest Management of
Horticultural Crops
Diploma in
Commercial Horticulture
(DCH-12/16/17)
Second Semester
Examination, 2019

Time : 3 Hours

[Maximum Marks : 40]

Note - This Paper is of Forty (40) marks divided into two (02) Sections A and B. Attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट- यह प्रश्नपत्र चालीस (40) अंकों का है जो दो (02) खण्डों, क तथा ख में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है।

खण्ड 'क'

दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न

नोट- खण्ड 'क' में तीन (03) दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए दस (10) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को

(2)

इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

(2 x 10 = 20)

1. फल सब्जियों को सुखाने में कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए को विस्तार से लिखे।
2. फलों का क्रय विक्रय में कौन कौन सी विधियाँ प्रचलित है विस्तार से लिखें।
3. परिरक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में विस्तार से लिखें।

खण्ड 'ख'

लघु उत्तरों वाले प्रश्न

नोट- खण्ड 'ख' में छः (06) लघु उत्तरों वाले प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच (05) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

(4 x 5 = 20)

1. अमरूद से जैली बनाने की विधि को लिखें।

(3)

2. फलों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है तथा इसके क्या लाभ है।
3. सब्जियों के विभिन्न भण्डारण के तरीको के बारे में लिखे।
4. टमाटर से कैचप तैयार करने की विधि लिखे।
5. मार्मलेड तथा जैली में अंतर स्पष्ट कीजिए।
6. फल परिरक्षण का भविष्य है।